



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2013/पौष 17, 1934

No. 71]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2013/PAUSA 17, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2013

का.आ. 75(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5) के 682.980 कि.मी. से 741.202 कि.मी. तक के भू-खण्ड (चेन्नै-कोलकाता कोरिडोर) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष उप कलक्टर, भूमि अर्जन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5, विशाखापत्तनम, जिला विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5) के 682.980 कि.मी. से 741.202 कि.मी. तक (कोलकाता-चेन्नै कोरिडोर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

| क्रम संख्या | जिला का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | शहर सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मी में) |
|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | (1) | (1) | (1) | 22 भाग | निजी | सुषक | 80.96 |
| | विशाखपट्टनम | विशाखपट्टनम अर्बन | महिलपालेम | 22 भाग | निजी | सुषक | 111.85 |
| | | | | 42/2A भाग | सरकार | पोराबोक | 12.52 |
| | | | | 42/2A भाग | सरकार | पोराबोक | 8.35 |
| | | | | 42/2A भाग | सरकार | पोराबोक | 16.69 |
| | | | | 42/2A भाग | सरकार | पोराबोक | 37.56 |
| | | | | 42/2A भाग | सरकार | पोराबोक | 28.38 |
| | | | | 42/2A भाग | सरकार | पोराबोक | 79.29 |
| | | | | 42/2A भाग | सरकार | पोराबोक | 50.92 |
| | | | | 42/2A भाग | सरकार | पोराबोक | 63.44 |
| | | | | 61/2B भाग | निजी | सुषक | 138.56 |
| | | | | 61/3A भाग | निजी | सुषक | 38.39 |
| | | | | 61/3A भाग | निजी | सुषक | 90.15 |
| | | | | 61/3A भाग | निजी | सुषक | 32.55 |
| | | | | 61/3A भाग | निजी | सुषक | 76.00 |
| | | | | 61/3B & 3D | निजी | सुषक | 85.14 |
| | | | | 61/3D & 3C | निजी | सुषक | 50.10 |
| | | | | 59/20A भाग | निजी | सुषक | 22.53 |
| | | | | 59/20A भाग | निजी | सुषक | 20.86 |
| | | | | 59/20A भाग | निजी | सुषक | 34.22 |
| | | | | 58/9A भाग | निजी | सुषक | 210.35 |
| | | | | 58/10A भाग | निजी | सुषक | 117.70 |
| | | | | 58/10A भाग | निजी | सुषक | 64.27 |
| | | | | 58/10A भाग | निजी | सुषक | 42.57 |
| | | | | 58/12A भाग | निजी | सुषक | 40.90 |
| | | | | 58/12A भाग | निजी | सुषक | 41.73 |
| | | | | 58/12A भाग | निजी | सुषक | 33.38 |
| | | | | 58/13A भाग | निजी | सुषक | 55.10 |
| | | | | 58/13A भाग | निजी | सुषक | 50.10 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 54.25 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 33.39 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 23.37 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 21.70 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 87.65 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 95.16 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 19.20 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 15.56 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 49.25 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 68.40 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 25.00 |
| | | | | 57/2 भाग | सरकार | पोराबोक | 44.24 |
| | | | | 56/1A भाग | निजी | सुषक | 80.10 |
| | | | | 56/1A भाग | निजी | सुषक | 125.20 |
| | | | | 56/1A भाग | निजी | सुषक | 197.00 |
| | | | | 56/1A भाग | निजी | सुषक | 55.92 |
| | | | | महिलपालेम गाँव कुल हद | | | 2729.95 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|-----|-----|------------------|--------------------------|-------|---------|---------|
| | | | (2) येकोजी पालेम | 26/2A भाग | निजी | सुषक | 28.38 |
| | | | | 26/2A भाग | निजी | सुषक | 69.26 |
| | | | | 26/1A भाग | निजी | सुषक | 216.19 |
| | | | | 26/1A भाग | निजी | सुषक | 138.56 |
| | | | | 26/1A भाग | निजी | सुषक | 80.97 |
| | | | | 26/1A भाग | निजी | सुषक | 142.73 |
| | | | | 26/1A भाग | निजी | सुषक | 92.65 |
| | | | | 19/3A भाग | निजी | सुषक | 197.80 |
| | | | | 1 भाग | सरकार | पोराबोक | 35.06 |
| | | | | 1 भाग | सरकार | पोराबोक | 43.40 |
| | | | | 1 भाग | सरकार | पोराबोक | 42.57 |
| | | | | 1 भाग | सरकार | पोराबोक | 40.06 |
| | | | | 1 भाग | सरकार | पोराबोक | 46.74 |
| | | | | 1 भाग | सरकार | पोराबोक | 58.43 |
| | | | | 1 भाग | सरकार | पोराबोक | 31.72 |
| | | | | 1 भाग | सरकार | पोराबोक | 63.43 |
| | | | | 1 भाग | सरकार | पोराबोक | 31.72 |
| | | | | 1 भाग | सरकार | पोराबोक | 37.56 |
| | | | | 1 भाग | सरकार | पोराबोक | 20.03 |
| | | | | 7/1A भाग | निजी | सुषक | 31.72 |
| | | | | 7/1A भाग | निजी | सुषक | 43.40 |
| | | | | 10 भाग | निजी | सुषक | 17.53 |
| | | | | 10 भाग | निजी | सुषक | 14.19 |
| | | | | 10 भाग | निजी | सुषक | 16.69 |
| | | | | 10 भाग | निजी | सुषक | 18.36 |
| | | | | 10 भाग | निजी | सुषक | 14.19 |
| | | | | 10 भाग | निजी | सुषक | 14.19 |
| | | | | 10 भाग | निजी | सुषक | 13.36 |
| | | | | 10 भाग | निजी | सुषक | 5.00 |
| | | | | 10 भाग | निजी | सुषक | 14.19 |
| | | | | येकोजी पालेम गाँव कुल हद | | | 1620.08 |
| | | | (3) वाल्टर वार्ड | 41/1 | निजी | सुषक | 27.54 |
| | | | | 41/1 | निजी | सुषक | 146.07 |
| | | | | 41/1 | निजी | सुषक | 61.77 |
| | | | | 42/1 | निजी | सुषक | 840.00 |
| | | | | 43/2A | सरकार | पोराबोक | 1162.00 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 39.23 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 89.31 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 116.02 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 81.80 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 60.10 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 64.27 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 83.47 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 40.07 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 39.23 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 34.22 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 35.06 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 50.91 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 40.07 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 31.72 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 27.54 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 12.52 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 15.86 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 57.60 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 60.93 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 30.89 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-------------------------|-----|-----|-----|-------|------|------|---------|
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 45.07 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 36.73 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 21.70 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 25.04 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 28.38 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 42.57 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 75.12 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 10.85 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 6.68 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 21.70 |
| | | | | 44/1 | निजी | सुषक | 40.90 |
| | | | | 1/1A7 | निजी | सुषक | 32.55 |
| | | | | 1/1A6 | निजी | सुषक | 9.18 |
| | | | | 1/1A6 | निजी | सुषक | 35.89 |
| वाल्टेर वाडे गौव कुल हद | | | | | | | 3680.56 |

[फा. सं. भाराप्र/11013/एलए-3ए/पीआईयू-विजाग/2020]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2013

S.O. 75(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to be the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the lands, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four laning/six laning etc.) , maintenance, management and operation of National Highway No. 16 (Old NH-5) in the stretch of land from Km. 682.980 to Km. 741.202 (Chennai – Kolkata Corridor) in District Visakhapatnam in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such lands;

Any person interested in the said land, may within twenty-one days from the date of publication of this notification, in the Official Gazette, objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special Deputy Collector, Land Acquisition, NH-5, Visakhapatnam, District Visakhapatnam, Andhra Pradesh, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing of such objection and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km.682.980 to Km.741.202 (Kolkata - Chennai Corridor) of the National Highway No.16 (Old NH-5) in the State of Andhra Pradesh

| Serial number | Name of the district | Name of the mandal | Name of the village | Survey number | Type | Nature of land | Area in square meters |
|---------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | (1) Visakhapatnam | (1) Visakhapatnam Urban | (1) Maddilapalem | 22 Part | Private | Dry | 80.96 |
| | | | | 22 Part | Private | Dry | 111.85 |
| | | | | 42/2A Part | Government | Poramboke | 12.52 |
| | | | | 42/2A Part | Government | Poramboke | 8.35 |
| | | | | 42/2A Part | Government | Poramboke | 16.69 |
| | | | | 42/2A Part | Government | Poramboke | 37.56 |
| | | | | 42/2A Part | Government | Poramboke | 28.38 |
| | | | | 42/2A Part | Government | Poramboke | 79.29 |
| | | | | 42/2A Part | Government | Poramboke | 50.92 |
| | | | | 42/2A Part | Government | Poramboke | 63.44 |
| | | | | 61/2B Part | Private | Dry | 138.56 |
| | | | | 61/3A Part | Private | Dry | 38.39 |
| | | | | 61/3A Part | Private | Dry | 90.15 |
| | | | | 61/3A Part | Private | Dry | 32.55 |
| | | | | 61/3A Part | Private | Dry | 76.00 |
| | | | | 61/3B & 3D | Private | Dry | 85.14 |
| | | | | 61/3D & 3C | Private | Dry | 50.10 |
| | | | | 59/20A Part | Private | Dry | 22.53 |
| | | | | 59/20A Part | Private | Dry | 20.86 |
| | | | | 59/20A Part | Private | Dry | 34.22 |
| | | | | 58/9A Part | Private | Dry | 210.35 |
| | | | | 58/10A Part | Private | Dry | 117.70 |
| | | | | 58/10A Part | Private | Dry | 64.27 |
| | | | | 58/10A Part | Private | Dry | 42.57 |
| | | | | 58/12A Part | Private | Dry | 40.90 |
| | | | | 58/12A Part | Private | Dry | 41.73 |
| | | | | 58/12A Part | Private | Dry | 33.38 |
| | | | | 58/13A Part | Private | Dry | 55.10 |
| | | | | 58/13A Part | Private | Dry | 50.10 |
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 54.25 |
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 33.39 |
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 23.37 |
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 21.70 |
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 87.65 |
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 95.16 |
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 19.20 |
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 15.56 |
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 49.25 |

103 GI/13-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|-------------------------|---------------------|------------|-----------|------------------|
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 68.40 |
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 25.00 |
| | | | | 57/2 Part | Government | Poramboke | 44.24 |
| | | | | 56/1A Part | Private | Dry | 80.10 |
| | | | | 56/1A Part | Private | Dry | 125.20 |
| | | | | 56/1A Part | Private | Dry | 197.00 |
| | | | | 56/1A Part | Private | Dry | 55.92 |
| | | | | TOTAL EXTENT | | | 2729.95 |
| | | | (2) Venkoji Palem | 26/2A part | Private | Dry | 28.38 |
| | | | | 26/2A part | Private | Dry | 69.26 |
| | | | | 26/1A part | Private | Dry | 216.19 |
| | | | | 26/1A part | Private | Dry | 138.56 |
| | | | | 26/1A part | Private | Dry | 80.97 |
| | | | | 26/1A part | Private | Dry | 142.73 |
| | | | | 26/1A part | Private | Dry | 92.65 |
| | | | | 19/3A part | Private | Dry | 197.80 |
| | | | | 1 Part | Government | Poramboke | 35.06 |
| | | | | 1 Part | Government | Poramboke | 43.40 |
| | | | | 1 Part | Government | Poramboke | 42.57 |
| | | | | 1 Part | Government | Poramboke | 40.06 |
| | | | | 1 Part | Government | Poramboke | 46.74 |
| | | | | 1 Part | Government | Poramboke | 58.43 |
| | | | | 1 Part | Government | Poramboke | 31.72 |
| | | | | 1 Part | Government | Poramboke | 63.43 |
| | | | | 1 Part | Government | Poramboke | 31.72 |
| | | | | 1 Part | Government | Poramboke | 37.56 |
| | | | | 1 Part | Government | Poramboke | 20.03 |
| | | | | 7/1A Part | Private | Dry | 31.72 |
| | | | | 7/1A Part | Private | Dry | 43.40 |
| | | | | 10 Part | Private | Dry | 17.53 |
| | | | | 10 Part | Private | Dry | 14.19 |
| | | | | 10 Part | Private | Dry | 16.69 |
| | | | | 10 Part | Private | Dry | 18.36 |
| | | | | 10 Part | Private | Dry | 14.19 |
| | | | | 10 Part | Private | Dry | 14.19 |
| | | | | 10 Part | Private | Dry | 13.36 |
| | | | | 10 Part | Private | Dry | 5.00 |
| | | | | 10 Part | Private | Dry | 14.19 |
| | | | | TOTAL EXTENT | | | : 1620.08 |
| | | | (3) Waltair Ward | 41/1 | Private | Dry | 27.54 |
| | | | | 41/1 | Private | Dry | 146.07 |
| | | | | 41/1 | Private | Dry | 61.77 |
| | | | | 42/1 | Private | Dry | 840.00 |
| | | | | 43/2A | Government | Poramboke | 1162.00 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 39.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|---|---|---|-------|---------|-----|----------------|
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 89.31 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 116.02 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 81.80 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 60.10 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 64.27 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 83.47 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 40.07 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 39.23 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 34.22 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 35.06 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 50.91 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 40.07 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 31.72 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 27.54 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 12.52 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 15.86 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 57.60 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 60.93 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 30.89 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 45.07 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 36.73 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 21.70 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 25.04 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 28.38 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 42.57 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 75.12 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 10.85 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 6.68 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 21.70 |
| | | | | 44/1 | Private | Dry | 40.90 |
| | | | | 1/1A7 | Private | Dry | 32.55 |
| | | | | 1/1A6 | Private | Dry | 9.18 |
| | | | | 1/1A6 | Private | Dry | 35.89 |
| TOTAL EXTENT : | | | | | | | 3680.56 |

[F. No. NHAI/11013/LA-3a/PIU-Vizag/2020]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.